

“Public order” which is a State subject, according to Schedule VII of the Constitution of India. Substantive action under the law in such cases has to be taken by the State/UT Governments concerned. However, the Centre keeps in close touch with the State Governments and offers suggestions to them from time to time to expedite measures aimed at removing the basic factors responsible for such incidents and for strengthening the administra-

tive machinery to ensure prompt and effective action in such cases and to provide protection to and instil a sense of security among the weaker sections.

According to the information furnished by the State Governments till dated, the following are number of cases of crimes against members of Scheduled Castes reported in the States of Bihar, Maharashtra and Andhra Pradesh during 1976 and 1977:

State	1976	1977
Bihar	621	421 (Upto October)
Maharashtra	211	367 (Upto September)
Andhra Pradesh	34	70 (Upto September)

मध्य प्रदेश के गांव में सड़कों का विकास

358. श्री अमन सिंह ठाकुर : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बस्तर जिले में 90 प्रतिशत गांवों के विकास के लिए पहुंच सड़कों की बहुत आवश्यकता है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता से वहां पहुंच सड़क बनाने के लिए कोई योजना बनायेगी ?

नौबहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख). गांवों का विकास और उनमें पहुंच-सड़कों का निर्माण राज्य का विषय है। इसलिए, यह मध्य प्रदेश सरकार का काम है कि वह आवश्यकता का मूल्यांकन करे और संबंधित पहुंच-सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम की योजना बनाए। परन्तु इस मामले में उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

1977-78 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में योजक सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 170 लाख रु० की राशि दी गयी। इसके अलावा, योजना आयोग ने भी 1977-78 में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सम्पूर्ण जनजाति उप-योजना के लिए 'परिवहन और संचार' के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य की योजना और प्रावधान में से उन्हें 440 लाख रु० दिए।

बस्तर जिले में टेलीविजन केन्द्र

359. श्री अमन सिंह ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर टेलीविजन केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों को शिक्षित करने के लिए बस्तर जिले में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?